

राज्यपाल ने हास्य कवि सम्मेलन में शिरकत की

लखनऊ: 01 अप्रैल, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज संस्था रंगभारती द्वारा रवीन्द्रालय चारबाग में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन 'घोघा बसंत' में शिरकत की। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रख्यात हास्य कवि श्री शम्भू शिखर, नयी दिल्ली को 'बेढब बनारसी हास्य कवि शिखर सम्मान' देकर सम्मानित किया।

राज्यपाल ने कवियों से परिचय प्राप्त करने के बाद रंगभारती के संस्थापक श्री श्याम कुमार से अपना परिचय बताते हुये कहा कि जब वे राज्यपाल बनकर आये थे तो उनकी मुलाकात श्याम कुमार जी से हुई थी। श्याम कुमार जी ने उन्हें अपनी संस्था रंगभारती द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में आमंत्रित किया। मुझे तब पता चला कि यहाँ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कोई अन्य आयोजन नहीं होता। तत्कालीन मुख्यमंत्री से मैंने बात की, पर सफलता नहीं मिली।

श्री नाईक ने कहा कि मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेशवासी गत 26 वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से नहीं होता है। 'जो भी सरकार होती है वह राज्यपाल की होती है। अब अपनी नई सरकार को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिये विचार करने को कहूँगा।' उन्होंने कहा कि 1 मई को राजभवन में महाराष्ट्र दिवस का आयोजन किया जायेगा जिसमें अन्य आयोजन के साथ श्री जी0डी0 मडगुलकर द्वारा रचित गीत रामायण का भी कार्यक्रम रखा जायेगा।

राज्यपाल ने कहा कि रंगभारती द्वारा आयोजित हास्य कवि सम्मेलन गत 56 सालों में काफी लोकप्रिय हो गया है। हास्य व्यंग्य में अपनी ताकत होती है जो सुनते समय पता चलती है। व्यंग्य गुदगुदी के साथ यथार्थ को भी बताते हैं। व्यंग्य और कटाक्ष में मौलिक अंतर होता है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त शब्दों का उपयोग कैसे हो, यह व्यंग्य की कविता में देखने को मिलता है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कुछ कवियों की रचनाओं को सुना एवं तारीफ की। रंगभारती के अध्यक्ष श्री श्याम कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा अपने विचार व्यक्त किये।

अंजुम/ललित/राजभवन (123/2)



